

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 532]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 1972/वी० 8, 1894

No. 532]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 1972/PAUSA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 29th December 1972

S.O. 772(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Twentieth Amendment Order, 1972.
2. In the Exports (Control) Order, 1968, in Schedule I, Part 'B' the word "and Barseem Seeds" in the existing entry against item No. 27(i) shall be deleted.
3. In the Exports (Control) Order, 1968, in Schedule I Part 'A' after item No. 6(xiii), the following items shall be added:—
 - "6(xiv) Egyptian Clover, (Berseem), Trifolium alexandrinum Seeds.
 - (xv) Lucerne (Alfalfa) Medicago sativa Seeds.
 - (xvi) PPersian clover, (Shaftal), Trifolium resupinatum Seeds.

[No. E(C)O, 1968/AM(90).]

M. M. SEN,

Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1972

का० आ० 772 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 (1947 का 18) के खंड 3 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) बीसवां संशोधन आदेश, 1972 की संज्ञा दी जाए ।
2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 1, भाग “बी” में मद सख्या 27 (1) के सामने की वर्तमान प्रविष्टि के शब्द “और बर्सीम सीड्स” को हटाया जाएगा ।
3. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 1, भाग “ए” में मद सख्या 6 (13) के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी :—
 “6(14)—मिश्री ग्लोवर (बर्सीम), त्रिफोलियम इलेक्जन्ड्रियम सीड्स ।
 (15)—लमर्न (अल्फाल्फा) मेडिएज सेतिवा सीड्स ।
 (16)—परसियन क्लोवर (शपटल) , त्रिफोलियम
 रिसुपिटनम सीड्स ।

[सख्या ई० (सी) ओ, 1968/एएम(90)]

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।